

CIN No. L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4, MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017

Phone No: 011-42181244, Email ID: genesis599@gmail.com, Website: www.genesisfinance.net

October 13, 2023

To,
The Listing Executive
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Building A, Unit 205A, 2nd Floor,
Piramal Agastya Corporate Park,
L.B.S Road, Kurla West, Mumbai – 400070

Symbol: GENESISFIN ISIN: INE421K01019

#### <u>Subject: Intimation regarding completion of dispatch of postal ballot notice and publication of newspaper advertisement</u>

This is to inform that the Company has on October 12, 2023 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice. Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement to all Members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company or with their Depository Participant (in respect of the shares held in electronic form) and physical copies to the Members who have not registered their email ids as on Friday, October 06, 2023, i.e. the cut-off date.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the copy of the newspaper advertisement published in Financial Express, (All Editions) and Jansatta, Delhi Edition (Hindi). The same has been made available on the Company's website <a href="https://www.msei.com">www.msei.com</a>.

Thanking You,

For Genesis Finance Company Limited

New Delhi

(Whole Time Director and Chief Financial Officer)

**DIN:** 00597160

Regd. Office Add: 4 MMTC/STC Market,

Geetanjali, New Delhi-110017

Encl: Copy of newspaper advertisements, published in Financial Express and Jansatta.

**FINANCIAL EXPRESS** 

### IN 2019, DRI MOVED THE APEX COURT

## SC to hear DRI vs Adani along with 'smuggling' case

JAY MAZOOMDAAR New Delhi, October 12

**ON OCTOBER 10**, hearing a case regarding the alleged over-invoicing of Indonesian coal imported by the Adani Group, the Supreme Court clubbed the matter with another case related to alleged smuggling of duty-free gold by

a Hyderabad-based jeweller.

It was in November 2019, that the DRI had moved the apex court against a Bombay High Court order in favour of the Adani Group. The case has been heard four times in four years since and is yet to reach the argument stage.

Additional Solicitor General Tushar Mehta, representing DRI, drew the apex court's attention on October 10 to a recent order by a different bench in another case involving the agency. Two questions formulated in that order would have relevance in the Adani case, the court said, and ordered that "both the matters be placed before the appropriate Bench" without specifying any date.

The two relevant questions – whether the DRI officers are police officers and whether registering an FIR under Sections 133 to 135 of the Customs Act, 1962

is mandatory before an accused is arrested - were framed by the Supreme Court on July 4 in the DRI's case against the Hyderabad-based jeweller who was arrested under the PMLA in 2021.

The DRI is probing at least 40 companies for alleged overvaluation of coal imports from Indonesia pegged at ₹29,000 crore between 2011 and 2015. The list includes six Adani companies including Adani Enterprise and Adani

The Adani Group has denied any wrongdoing.

In 2016, the agency issued a general alert to field offices and customs across India on the "modus-operandi of inflating the procurement price of imported coal" with



the objective of "siphoning-off money abroad" and availing "higher power tariff compensation based on artificially inflated cost of the imported coal."

While Indonesian coal was shipped directly from Indonesian ports to India, the DRI's 2016 alert said, suppliers' invoices were "routed through one or more intermediaries based in Singapore, Dubai, Hong Kong, British Virgin Islands (UK) etc for the purpose of artificially inflating its value." Claiming that the "inter-

mediary firms appear to be either subsidiary companies of Indian Importers or their front" companies, the DRI alert said the "cases under examination suggest huge over-valuation to the extent of about 50% to 100%." The DRI case against the

Adani Group assumes significance as the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) had in November 2017 pointed out that findings of the probe into alleged overinvoicing of Indonesian coal imports by Adani Power would affect the compensation it received from distribution companies in Haryana. The Adani Group has also received compensation from distribution companies in Rajasthan, Gujarat and Maharashtra.

In theory, the overvaluation of coal inflates the production cost, pushing up the power tariff fixed by the CERC or the respective state regulatory commissions, and making the consumers pay more for the consumption of elec-

The DRI had approached the Supreme Court after the Bombay High Court had in September 2018 quashed all Letter Rogatories (LRs) sent by the agency to Singapore and other countries while probing Adani Group companies for alleged overvaluation of Indonesian coal imports. An LR is a formal request seeking judicial assistance during an investigation involving a for-

At the first hearing in January 2020, the SC stayed the Bombay HC order. In the second hearing in February 2020, a three-judge bench headed by then Chief Justice of India SA Bobde ordered to put up the case after one week "in view of the letter circulated by Advocate-on-Record for the respondent (Adani) seeking adjournment for filing counter affidavit."

That one week stretched to nearly three-and-a-half years.

The Adani Group took 22 months to file the counter affidavit in December 2021. It took another 19 months for the case to get its next hearing. It finally came up this July when the apex court asked the DRI to "file rejoinder affidavit as well as the additional affidavit along with the documents" and listed the matter for October 10.

# India-China military talks stalled again

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, October 12

THERE WAS NO forward movement at the latest round of India-China military talks towards resolution of the lingering standoff at the remaining friction points along the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh, people familiar with the matter said on Thursday.

Senior military commanders of the two sides held the 20th round of talks on October 9 and 10 at Chushul-Moldo border meeting point on the Indian side of the LAC in the region. The talks were cordial but there was no forward movement on resolution of the pending issues, the people cited above said.

It is learnt that in the talks, the Indian side strongly pressed for resolution of the lingering issues at Depsang and Demchok.

The Ministry of External Affairs (MEA) on Wednesday said the talks were held in an "open and constructive manner" for an early and mutually acceptable resolution of the remaining issues.

It said the two sides agreed to maintain the momentum of dialogue and negotiations through the relevant military and diplomatic mechanisms.

"The two sides exchanged views in a frank, open and constructive manner for an early and mutually acceptable resolution of the remaining issues along the LAC in the Western Sector, in accordance with the guidance provided by the national leadership of the two countries, and building on the progress made in the last round of Corps Commanders' meeting held on August 13-14," the MEA said in a state-

The Indian and Chinese troops are locked in an over three-year confrontation in certain friction points in eastern Ladakh even as the two sides completed disengagement from several areas following extensive diplomatic and military talks.

India has been maintaining that its ties with China cannot be normal unless there is peace in the border areas.

The eastern Ladakh border standoff erupted on May 5, 2020, following a violent clash in the Pangong lake area.

The ties between the two countries nosedived significantly following the fierce of development in border areas". clash in the Galwan Valley in June 2020 that marked the most serious military conflict between the two sides in decades.

### Jaishankar security cover upgraded to 'Z'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, October 12

THE SECURITY COVER of External Affairs Minister S Jaishankar has been upgraded from the 'Y' category to 'Z', official sources said on Thursday.


The Union home ministry has asked the Central Reserve Police Force (CRPF) to take the charge of his security, currently provided by the Delhi Police, they said.

Jaishankar, 68, was being guarded by an armed team of the Delhi Police under the 'Y' category security cover.



He will now be protected by the CRPF under the larger 'Z' category security cover which entails about 14-15 armed commandos moving with him round the clock in shifts across the country, the sources said.

#### IN MEDITATION



Prime Minister Narendra Modi at Parvati Kund, in Pithoragarh, on Thursday.

## Priority is to build border roads: PM in Uttarakhand

**AVANEESH MISHRA** Dehradun, October 12

PRIME MINISTER NARENDRA Modi dedicated to the nation Thursday development projects worth around ₹4,200 crore and laid the foundation stone while launching a tirade against the previous government for "lack

Addressing a gathering, Modi said the government's pri-

Tender Description

No.

ority is to develop border roads, where rapid growth is taking place. The projects include development, road, power, irrigation, drinking water, horticulture, education, health and disaster management. "They (the previous government) did not develop the border areas, fearing that our enemies might use them to enter the state. India today has left such thoughts

behind and moved forward...

Over the last nine years, we have made over 4,200 km of road, 250 bridges, and 22 tunnels in the border areas. We are also planning to bring trains to our borders,"he said.

India is touching new heights, he said, emphasising on the connection between Uttarakhand and the Chandrayaan-3 success as the landing point is called Shiv-Shakti

#### TP SOUTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED (Procurement Department)

TPSØDL

2nd Floor, Khodasingi, Berhampur, Odisha-760010

BPR North Star Building,

#### NOTICE INVITING TENDER Dt.: 13.10.2023

TP Southern Odisha Distribution Ltd. invites tender from eligible vendors for following: **EMD** Tender Fee inclusive Last date and time of NIT Number (Rs.) of GST (Rs. Payment of Tender Fee

Supply of 11kV CROSS TPSODL/OT 25.10.2023; 50,000 5.000 ARM HT V SHAPE 2023-24/058 18:00 Hrs. For detailed tender, please visit Tender Section on TPSODL website https://www.tpsouthernodisha.com

#### TP SOUTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED **TPSØDL** (Procurement Department)

BPR North Star Building, 2nd Floor, Khodasingi, Berhampur, Odisha-760010

> NOTICE INVITING TENDER NIT No.: TPCODL/P&S/NIT/23-24/19

Bids are invited from eligible Bidders for the following tenders of Odisha DISCOMs, namely TPCODL TPNODL/TPWODL/TPSODL (JV of Tata Power & Odisha Govt.)

SI. No.	Tender Enquiry No.	Tender Description
1	TPCODL / CCG / 23-24 / 042	Rate Contract for the supply of 33 KV & 11 KV Fault Passage Indicator & DCU.
For	more details like bid due date. I	EMD, tender fee, bid opening date etc. of the Tenders, please visit

"Tender" section TPCODL website https://www.tpcentralodisha.com. All tenders will be available on TPCODL website w.e.f. from Dtd. 13.10.2023. Future communication / corrigendum to tender documents, if any, shall be available on TPCODL website

### Canadian Speaker skips G20 Speakers' Summit

**DIVYA A** New Delhi, October 12

**AMID THE DIPLOMATIC** row between India and Canada, the Speaker of the Canadian Senate, Raymonde Gagne, is skipping the two-day G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20 Sum-

mit) that begins here on Friday. Earlier, Canada had confirmed to Lok Sabha Speaker Om Birla's office that Gagne would attend the summit. Speaking to reporters last week, Birla had said he would raise "several issues" in his informal talks with the Canadian Speaker.

"The Canadian Speaker is not attending the Summit. Schedules keep changing," sources said. No reason was given for Canada's decision. It is unclear if Canada will have any other representative at the meeting.

> Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.

Address of the registered office

Asset to be sold

Last date for receipt of

expression of interest

**Expression of Interest** 

Process email id to submit

Last date to submit the bid

SL

4

Speaking to reporters on Thursday, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Arindam Bagchi confirmed the development. He said that India had invited all G20 members and guest countries, and they were free to take a call on their participation.

Among the other members of the Five Eyes-an intelligencesharing network that includes the US, UK, Canada, Australia and New Zealand – the US is also skipping the summit. With its last Speaker, Kevin McCarthy, being ousted from the post, the US is yet to get a new Speaker. While New Zealand is not among the invitees, the UK and Australia are attending the summit.

According to official sources, Germany and Argentina are also not attending the summit due to "internal reasons".

Alfara'a Infraprojects Private Limited

404, Baba House, Near WEH Metro Station,

Trade Receivables and Other Advances to

alfaraliq@gmail.com; team.aipl@in.gt.com

As Liquidator of Alfara'a Infraprojects Pvt Ltd

IP Registration No. IPA-001/IP-P01047/2017-2018/11730

Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093

Address- 404, Baba House, Near WEH Metro Station. Chakala

Sanjay Kumar Mishra

Contact: +91 986709587

Chakala, Andheri - Kurla Road, Andheri

Sundry Creditors forming part of the

U45400MH2011PTC212453

(East), Mumbai - 400 093

Liquidation estate

27 October 2023

16 November 2023

Interested Applicants may submit their EOI as per the terms of the invitation. For eligibility

1. The Soft copy of EOI documents along with all the annexures is required to be mailed at

alfaraliq@gmail.com on or before 5:00 PM on 27.10.2023 The hard copy of EOI document

should be sentto the office of the Liquidator in a sealed plain envelope superscripted as

"Expression of Interest for Alfara'a Infraprojects Private Limited (under Liquidation)"

containing a complete set of the EOI along with the annexures at the below-mentioned

2.Address for submission of EOI:Grant Thornton Advisory Private Limited, 16th Floor

Tower III, One International Center, SB Marg, Prabhadevi (W), Mumbai - 400013,

and detailed terms & conditions of the EOI, send email at alfaralig@gmail.com.

address by speed post/registered post or by hand delivery to be reached.

ALFARA'A INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR

**ALFARAA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED** Sale of Assets owned by ALFARA'A INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED (In

Liquidation) forming part of Liquidation Estate under Section 35(f) of IBC 2016 read

with Regulation 33 of Liquidation Process Regulations.

RELEVANT PARTICULARS

liaments for One Earth, One While Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the P20 Summit at Yashobhoomi in Dwarka on Friday, a

Thursday. According to a government statement earlier this week, over 200 parliamentarians and other leaders from different countries have confirmed their

pre-summit Parliamentary

Forum on LiFE (Lifestyle for

Environment) was held on

participation at the summit. "The main theme of the

ninth P20 is proposed to be 'Par-

Family, One Future!" Birla had said earlier. "It will have four sessions on 'transformation in people's lives through public digital platforms', 'women-led development', 'accelerating SDGs', and 'sustainable energy transition," he had said.

India's relations with Canada have been under strain after Canadian Prime Minister Justin Trudeau alleged a potential India government link to the killing of Khalistan separatist Hardeep Singh Nijjar.

#### **ROSELABS FINANCE LIMITED**

Regd. Office: 412. Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasii Patel Road. Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001 Tel.: 91.22.67737373 Fax: +91.22.23024420 Website: www.roselabsfinancelimited.in E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com

(₹ in Lakhs)

	UNAUDITED FINANCIAL RESU	LTS FOR THE 30-SEPTEMB		ND SIX MON	TH ENDED
Sr		Quarter		Six Month Ended	Year Ended
No		30-Sep-23 (Unaudited)	30-Sep-22 (Unaudited)	30-Sep-23 (Unaudited)	31-March-23 (Audited)
1	Total Income from Operations	(5.33)	(39.00)	(9.63)	15.08 (54.13) 206.28
2	Net Loss for the period before Tax (before Tax, Exceptionel and/or Extraordinary items#)				
3	Net Loss for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items#)				
4	Net Loss for the period after Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items#)	(5.33)	(39.00)	(9.63)	201.59
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Loss for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(5.33)	(39.00)	(9.63)	201.59
6	Equity share capital (Face Value of ₹ 10 each)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(1,430.39)
8	"Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) (Not annualised) "Basic and Diluted"	(0.05)	(0.39)	(0.10)	2.02

The above is an extract of the detailed format of Quarterl Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.roselabsfinancelimited.in. For and on behalf of the Board

Place: Mumbai Date: 12-Oct-2023 Sanjyot Rangnekar Director (DIN: 07128992)

For Roselabs Finance Limited

#### Form G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST UNITED NEWS OF INDIA Operating as a News Agency (in the News/ Media Industry) (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	UNITED NEWS OF INDIA PAN: AAATU0641B; CIN: U92200DL1959NPL003			
2.	Address of the registered office	9 Rafi Marg, New Delhi- 110001			
3.	URL of website	http://www.uniindia.com/			
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Nasik, Contin	Assets located in Delhi, Hyderabad, Bhopal, Bangalore, Nasik, Indore, Mumbai. Note: Most of the Major Assets are Contingent/ Leasehold assets/ disputed assets, under various Litigations. Available details can be sought by the RP		
5.	Installed capacity of main products/ services	The installed Capacity of the CD cannot be ascertained, bu the CD is one of the oldest Multi-lingual News Agencies of the country, with approx 460 Subsribers			
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Revenue from Operations as per Balance sheet for 2021-22 Rs.8,65,10,996/ Revenue from Operations as per Data provided by management for 2022-23; Rs.6,73 Crores (approx) No of Subscribers (Billed): 460 No of paying Subscribers: 380 Note: The audited Balance Sheet for the year ending Marc 2022 had not been approved in their AGM last year and the Balance sheets for the year ending March 2023 and CIR Commencement Date are Finalized, but still not Audited			
7.	Number of employees/ workmen	Regular Employees: 192 Contractual Employees: 66			
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	http://www.uniindia.com/cirp.aspx			
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	http://	/www.uniindia.com/cirp.aspx		
10.	Last date for receipt of expression of in	terest	30 October 2023		
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants		9 November 2023		
12.	Last date for submission of objections to provisional list		14 November 2023		
13.	Date of issue of final list of Prospective Resolution Applicants		24 November 2023		
14.	Date of issue of Information Memorandum, Evaluation Matrix and Request for Resolution Plans to prospective resolution applicants				
			30 December 2023		
15.	Last date for submission of resolution pl	ans	30 December 2023		

charitable objects under Section 25 of the Companies Act, 1956. A Resolution applicant seeking to acquire the shares of the Corporate Debtor or convert the Corporate Debtor from not for profit to a profit making company shall be solely responsible for obtaining such approval as may be required for acquisition of shares or conversion, as the case may be, under applicable laws, including the extant FDI policy, in accordance with the provisions of the IBC.

Note: The above Form G is subject to the further Extension of CIRP Period granted by the Honble NCLT. as the CIRP Period of 180 days is getting over on 15 November 2023. In case the said Extension is not granted by the Honble Adjudicating Authority, the RP/ COC reserves the right to change, update, amend, supplement, modify, add to, delay or otherwise annul or cease the EOI/ Bid Process at any point in time, without assigning any reason whatsoever. A process to invite resolution was initiated on 5th August 2023, however based on decision taken by

Committee of Creditors a 2nd round for inviting EOI for submission of resolution plan had been initiated on

11th September 2023. Based on further decision of COC and pursuant to the approval/permission granted by the Honble Adjudicating Authority on 5th October 2023 (orders uploaded on 12th October 2023), the Form G has been modified/re-issued again. Date and Place: 13 October 2023 at New Delhi POOJA BAHRY Resolution Professional of United News of India IP Registration no.: IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063:

AFA No AA3/10063/02/121223/300816 Valid till 12/12/2023 Date: 12th October, 2023 Address: 59/27 Prabhat Road, New Rohtak Road, New Delhi-110005; Ph: 9811071716 Email: cirp.unitednewsofindia@gmail.com, pujabahry@yahoo.com Place: New Delhi

#### GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED Corporate Identity Number: L65910DL1990PLC040705 Read. Office: 4 MMTC/STC Market Geetanjali New Delhi - 110 017

Phone No.: +91 11 4218 1244 Website: www.genesisfinance.net; E-mail: genesis599@gmail.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 and 22 o the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time ('Companies Act') read with the General Circulars bearing reference number '14/2020 dated

April 08, 2020' and '17/2020 dated April 13, 2020' in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Act and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19" read with the General Circulars bearing reference number '22/2020 dated June 15, 2020', '33/2020 dated September 28, 2020', '39/2020 dated December 31, 2020', '10/2021 dated June 23, 2021', '20/2021 dated December 8 2021', '2/2022 dated May 05, 2022', '11/2022 dated December 28, 2022' and '09/2023 dated eptember 25, 2023', in relation to extension of the framework provided in the aforementioned seneral Circulars up to September 30, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs MCA' and the circulars issued by MCA are collectively referred to as 'MCA Circulars') nd Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and sclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations'), including any tatutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force nd as may be enacted hereinafter, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, and other applicable provisions of the Companies Act, to the Members of senesis Finance Company Limited ("Company"), to consider and if thought fit to pass the esolution set out herein below as a special resolution in accordance with Regulation 11 of the EBI Delisting Regulations and other applicable laws:

Description of Special Resolution Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from Metropolitian Stock Exchange of India Limited he Company has on October 12, 2023 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice.

fursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal allot Notice along with the Explanatory Statement to all Members of the Company, who ave registered their e-mail address with the Company or with their Depository Participant (in espect of the shares held in electronic form) and physical copies to the Members who have ot registered their email ids as on Friday, October 06, 2023, i.e. the cut-off date. The voting ghts of Members have been reckoned as on Friday, October 06, 2023 which was the cut-off ate. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information

oting through Postal Ballot including voting by electronic means shall commence from 9.00 AM IST on Friday, October 13, 2023 to 5.00 PM IST on Saturday, November 11, 2023. The fembers who have their email ids registered with the Company, shall avail remote e-voting acility. Further, the facility of physical voting option through Postal Ballot papers will be rovided to the Members who have not registered their email ids considering the relaxations

fembers are requested to note that e-voting will not be allowed beyond 5.00 PM IST on saturday, November 11, 2023. Further, for members opting for physical voting, duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before the close of working ours i.e. 5.00 PM IST on Saturday, November 11, 2023.

he Company has engaged the services of Skyline Financial Services Private Limited 'Registrar & Share Transfer Agent') for providing e-voting facility to all its Members. The structions on the process of postal ballot through remote e-voting, including the manner in hich Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail ddresses, are provided in the Postal Ballot Notice.

he Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at ww.genesisfinance.net, websites of the Stock Exchanges, i.e., Metropolitian Exchange India Limited at www.msei.com and on the website of Skyline Financial Services Private imited at www.skylinerta.com.

The Board of Directors have appointed Mr. Abhimanyu Upadhyaya, proprietor of M/s. A. Upadhyaya & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot (along with Scrutinizer's report) will be declared by the Chairman

of the Company on or before Wednesday, November 15, 2023 and will also be displayed on the website of the Company (www.genesisfinance.net), besides being communicated to the Stock Exchanges, National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (together the "Depositories") and Registrar & Share Transfer Agent. in case of any queries or grievances with regard to voting by postal ballot including e-voting, members can visit Help & FAQ's section available at Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com or contact on: - Tel: 022-23058738 and 022-23058542/43 or Mr. Gopal Bisht. Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Company at genesis599@gmail.com.

For Genesis Finance Company Limited

Richa Bhardwaj (Company Secretary & Compliance Officer) Membership No.: A32549



Date: 13 October 2023

Place: Mumbai














New Delhi

18.3 19.0

13 अक्तूबर, 2023 जनसता

### पी20 सम्मेलन कई सड़कों पर लग सकता है जाम

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित होने वाले पी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर गुरुवार को यातायात दिशा-निर्देश जारों किए गए।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को मेट्रो के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक जाने की संभावना है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से उन्होंने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। एक वरिष्ठ यातायात अधिकारी ने बताया कि सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक कई यातायात मार्गों में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि आपातकालीन वाहन आ-जा सकेंगे। कुछ सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है।

### जनसत्ता

क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE It is informed to the public at large that my clients **OM PARKASH** S/ Sh. Asa Nand and his wife KAMLESH GAKHER, both R/o 831 Upper Ground Floor, Sector-46 Gurugram-122003, Haryana and Presently Residing At:- Flat No.153, Pocket-F-25, Sector-3 Rohini, New Delhi-110085, hereby declaring/ debarring/ disowning thei son namely **UDAY GAKHER** and his wife SAKSHI AHUJA from the ives, properties and estate moveable or immoveable situated at Delhi or outside of Delhi because

and thing done by them since today Sd/- (OJASVI KHANEJA Office Address- 22/107, Wes Patel Nagar, New Delhi-110008

clients. My clients will not be

esponsible/ liable for any act, dee

#### PUBLIC NOTICE

he public in general is hereby inforn that Mr. Balbir Singh R/o B-24 Visha Enclave, New Delhi and Mr. Amrik Singh R/oHouse no. 16, Road no. 22 East Punjabi Bagh New Delhi are selling or their Property Bearing No. H-18, area measuring 144.8 Sq. Yds., approx (20' X 62') with all its roof/terrace rights Situated at Rajouri Garden mai market, in the area of Village Basai Darapur, New Delhi, claiming that they are the present/only Co. owners of the said property and My Clients Mr. Jaskaran Singh Madan and Mrs. Gurpriya Kau Madan both R/o N-16, Kirti Nagar, New Delhi, are the intending bonafide buyers Any person having any rights, title, clain or interest in the said property, by way o sale, inheritance, possession succession, mortgage, lien, lease and gif or otherwise shall intimate the objection in writing to the undersigned with supporting documents within 15 days from the date o publication of this notice. Or else any sucl claim shall not be considered and shall be eemed to have been waived and/o abandoned and my client shall proceed to

ADVOCATE PRATEEK ALAGH SWASTIK REALTY Mobile: 9891593333, 9891493333 prateek@swastikrealty.in

### PUBLIC NOTICE

is intimated to general publ hrough this public notice that as pe office record. Shop No. 98. Siz 20'x50' situated at NVM, Ballabga alling within the notified market are of Market Committee, Ballabgar (Faridabad) was allotted to Sh. Tila Raj Ahuja S/o Sh. Roshan Lal. Sh Tilak Raj Ahuja had died on date 23.09.2022. Smit. Aruna Ahuja w/o Late Sh. Tilak Raj Ahuja has given a application in this office that m usband has died, so in office record this shop mav please be transfer in m avour, Smt. Aruna Ahaia W/o Late Sl Tilak Raj Ahuja has given the certifie copy from Tehsildar of legal heirs of L Sh. Tilak Raj Ahuja with application this office, In which Smt. Aruna Ahuja wife) & Payal Ahuja (Daughter) are ention here as a legal heirs. Pava Ahuja gave her consent to transfer thi shop in favour of her mother Sm Aruna Ahuia. So this shop is to be re allotte in favour of Smit. Aruna Ahuia Before initiating the procedure of re allotment of this shop no. 98. Marke Committee. Ballabgarh is hereb ntimates that if any person has an rocedure, may file his/her writte bjection in person within 30 day rom the date of publication of the Committee, Ballabgarh in any workin day. In case no objection is receive by this office with in stipulated time the re-allotment procedure will b completed & no objection will b entertained later on.

Advocat (E. No. P/3660/2015 Chamber at 753 Lawyers Chamber Block Saket District Courts, New Delh

PUBLIC NOTICE My client ICICI Bank Ltd., Plot 308 Udyog Vihar, Phase 2 Gurgaon is in the process of advancing a loan to Mr. Rahul Jain for purchase of Apartment No. X-054, 5" Floor, super area admeasuring 165,051 Sq. Mtrs. Type-Senator, Regency Park-II, DLF City, Phase-IV, Near Galleria Market, Gurugram, Haryana-122009 from Ms. Seema Chibber & Ms. Sonia Chibber Tewari, who have represented that they are the absolute owners of the said property on the basis of inheritance after the death of Mr. Satya Pal Chibber & Mrs. Swaran Chibber being their only Class-I Legal heirs, who were the owners of the said Property on the basis of Conveyance Deed dated 10.05.2001 (Reg. no. 1960). If anybody, person, body corporate has any right, lien or claim whatsoever on the said Property or objection to its sale & mortgage, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 10 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims or the same have been waived off. No claim shall be entertained thereafter and my client shall proceed to advance

Vishal Chopra, Advocate **GNA & Associates** D-28, Jangpura Extension, New Delhi-110014.

the loan by mortgaging the said

पाक्सो मामलों की सुनवाई के लिए

# चार विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को दी गई मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

उपराज्यपाल ने एक पखवाड़े पहले कथित देरी को लेकर दिल्ली सरकार से इस मामले से संबंधित फाइल वापस ले ली थी। इस मामले पर दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनिवास के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने माना है कि दिल्ली की विभिन्न विशेष अदालतों में



*दिल्ली* की अदालतों में पाक्सो मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी, उपराज्यपाल ने नियुक्ति को दी मंजूरी।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के मामलों की सुनवाई हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के लिए विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति के मद्देनजर उपराज्यपाल की राय की आवश्यकता होगी।

इन मामलों की सुनवाई बीते नौ महीनों से

अधिक समय से अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि यह फाइल जनवरी से प्रभारी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक घूमती रही और 22 सितंबर को उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) कामकाज नियमावली के नियम 19 (5) को लागू किया। इसके साथ ही उन सभी फाइलों और प्रस्तावों को वापस ले लिया गया, जो उन्हें सौंपे गए थे। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा सार्वजनिक हित में जीएनसीटीडी नियमावली, 1993 के प्रावधानों को लाग करने के एक पखवाड़े बाद दिल्ली सरकार ने आखिरकार फाइल को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की सरकार ने नौ महीने से अधिक समय तक फाइल को रोक रखा था।

## कनाडाई गिरोहबाज अर्श दल्ला के दो गुर्गे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कनाडाई सरगना (गैंगेस्टर) अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। विशेष प्रकोष्ट (स्पेशल सेल) की टीम ने दोनों आरोपियों को सराय काले खां इलाके से मुठभेड़ के बाद को दबोचा था। इनकी पहचान फरीदकोट, पंजाब निवासी कृष्णा (25) और फिरोजपुर, पंजाब निवासी गुरेंदर सिंह (23) के तौर पर की गई है।

दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने बताया कि सूचना मिली थी कि आरोपी बुधवार रात को सराय काले खां, रिंग रोड पर आने वाले हैं। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रिंग रोड रोका और उनसे समर्पण करने के लिए कहा। अधिकारी ने बताया, कृष्ण ने पुलिस दल पर गोली चलाई। हालांकि, कोई भी अधिकारी घायल नहीं हुआ। अन्य आरोपी ने अपने थैले से हथगोला निकाला। पर जब तक वह उसकी पिन खींच पाता उससे पहले ही टीम ने उसे धर-दबोचा।

अधिकारी ने बताया कि उनके कब्जे से एक

पंजाब के मोंगा जिले में की गई कांग्रेस नेता ही हत्या के वारदात में दोनों आरोपी थे वांछित

हथगोला, एक पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए गए और मामले की जांच की जा रही है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला, पंजाब के मोंगा के दाला गांव का रहने वाला है और राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआइए) व पंजाब पुलिस का वांछित अपराधी है। पंजाब के सीमावर्ती राज्यों में सुपारी लेकर कई हत्याओं में उसकी संलिप्तता भी सामने आई है। सिंह पर पाकिस्तान से हथियार लेकर राज्य में गिरोहों को आरडीएक्स, आइईडी, एके 47 और अन्य हथियार की आपूर्ति करने का भी आरोप है। सिंह के खिलाफ मई 2022 में रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था। अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि दोनों आरोपी अर्श दल्ला के लिए शार्प-शृटर के तौर पर काम करते हैं। इन दोनों पर मोंगा में कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप है। इन दोनों ने पंजाब के ही तालवंडी में दिनदहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी थी।

## 'न्यूजिक्लक' मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा

## अशांति के लिए गलत सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं देश के दुश्मन

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, १२ अक्तूबर।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि गलत सूचना एक 'खतरनाक चीज' है जिसका इस्तेमाल अन्य देशों और भारत के दुश्मनों द्वारा सामाजिक विभाजन और अशांति पैदा करने के लिए किया गया है। मंत्री ने यह बात समाचार पोर्टल 'न्युजिक्लक' के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बारे में पृछे जाने पर कही।

चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट मंचों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आनलाइन स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने वाले नागरिक उन लोगों द्वारा गुमराह न किए जाएं या उनके उकसावे में न आएं जो

जानबूझकर भारत और भारतीयों के खिलाफ गलत सुचना फैलाते हैं।

सचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि केंद्र ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह बात निजी एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा के वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन

अवसर पर कही।

'इनिफनिटी 2023' के छठे संस्करण के शुभारंभ के

## पानी अदालत' में लोगों ने बताईं समस्याएं

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने शुक्रवार को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 'पानी अदालत' लगाई। इसमें चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के निवासियों की पानी से संबंधित समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित थे।

गोयल ने बताया कि अधिकतर दिल्लीवासी पानी की समस्या से त्रस्त हैं और उनके साथ बिलों को लेकर ज्यादती हो रही है। बहुत सारे लोगों का बिल पहले शुन्य आता था जो अब 50-50 हजार रुपए का आ रहा है। जिनके यहां मीटर नहीं लगा, उनका भी बिल भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल पर चलेगा विशेष अभियान

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने गुरुवार को बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक बीएस जून के साथ सीवर,पानी और बिलों के मुद्दों पर बैठक की। बैठक में अधिकारियों से पानी के घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल पर विशेष अभियान चलाने को कहा गया। डीजेबी उपाध्यक्ष द्वारा शुरू की गई खास मुहिम विधायक से मिलिए कार्यक्रम के तहत संपन्न हुई। बैठक में डीजेबी

केजरीवाल ने कहा था कि 90 फीसद पानी के बिल गलत बने हैं। लेकिन जल बोर्ड, लोगों को गलत बिल भरने को मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि हम सबको नए मीटर फ्री में लगाकर देंगे. लेकिन. उन्होंने अभी तक मीटर खरीदे ही नहीं तो उपाध्यक्ष ने जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीवर और पानी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। सोमनाथ भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2025 तक यमुना को साफ़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 'स्वच्छ यमना मिशन' के तहत राजधानी दिल्ली की हर कालोनी और गांव को सीवर नेटवर्क से जोडा जा रहा है।

लगाएंगे कहां से। अब लोग खुद 1500 रुपए का मीटर खरीदकर लगा रहे हैं। पानी अदालत में एक व्यक्ति ने बताया कि मीटर लगाने के लिए निर्धारित शुल्क उसने दिया था लेकिन 3 महीने धक्के खाने के बाद भी उसका मीटर नहीं लगा।

#### बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411 014,

शाखा कार्यालय : 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : नाम : जगदीप चौहान, ईमेल आईडी : jagdeep.chauhan@bajajfinserv.in, मोबा. नं. 9855733149/9109888889/8669189048

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल सम्पित्तियों की बिक्री के संबंध में ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

रतदद्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि कर्जदार / सह–कर्जदार ने यहां निम्न विवरणित अचल संपत्ति बजाज हाउंसिंग फाइनेंस लिमिटेड ('बीएचएफएल') के पास बंधक . रखी है तथा उक्त अचल संपत्ति ('प्रतिभूत आस्ति / संपत्ति') का कब्जा सरफासी ऐक्ट 2002 एवं उसकी नियमावली के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। प्रतिभूत आस्ति का विक्रय, निम्न विवरणितानुसार बीएचएफएल को देय–भुग्तेय ऋण बकाया की राशियों, लागू ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि की वसूली के लिए बोलीदान करके सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूत आस्ति का विक्रय 16—11—2023 को किया जा रहा है तथा बोलीदान का आयोजन, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम संख्या 8 व 9 के अंतर्गत एवं यहां नीचे विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर, "जैसी हैं जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है'' एवं ''कोई उपाय नहीं'' आधार पर किया जायेगा

कर्जदार/रों एवं गारंटर/रों

पता : 1296, भू तल, जामा मस्जिद, गली पहाडी इमली

पता : 1296, भू तल, जामा मस्जिद, गली पहाडी इमली.

कुल बकाया राशि : रू. 38,55,166 / – (रूपए अड़तीस

लाख पचपन हजार एक सौ छियासठ मात्र) 06-10-2023

की प्रभावी तिथि से उदभूत भावी ब्याज और प्रभारों सहित

1. मुहम्मद यूसुफ (कर्जदार)

चूड़ी वालान, जीपीओ दिल्ली–110006

चूड़ी वालान, जीपीओ दिल्ली-110006

2. गुलनार यूसुफ (सह-कर्जदार)

1. ई—नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 1) ई—नीलामी की तिथि : 16—11—2023

पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा की अंतिम तिथि : 15-11-2023 अप. 5.00 बजे (आईएसटी) तक 3) निरीक्षण की तिथि : 13-10-2023 से 14-11-2023 तक पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे (आईएसटी) के बीच

3. बोली वृद्धि सम्पत्ति के लिए सुरक्षित मूल्य रु. 20,00,000 / — (रुपये बीस लाख मात्र)

ईएमडी : रू. 2,00,000 /-(रूपए दो लाख मात्र) सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत। बोली वृद्धि - रू. 25,000/-(रूपए पच्चीस हजार मात्र) एवं इसके गुणजों में।

2. सम्पत्ति की ईएमडी

**अचल सम्पत्ति का वर्णन :** सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 2, शक्ति खंड–।।, दुकान नंबर 017, कार्पेट एरिया 224.14 वर्ग फीट यानी 20.82 वर्ग मीटर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, "ईरोस मार्किट प्लेस", इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201014, पूरब : स्कूल की भूमि, पश्चिम : 80 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : 100 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर 1

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं :

● सार्वजनिक नीलामी का आयोजन ''जैसी है जहां है, जैसी है जो है और कोई उपाय नहीं'' के आधार पर किया जा रहा है तथा संपत्ति का विक्रय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात अथवा अज्ञात विद्यमान एवं भावी समस्त ऋणभारों के साथ किया जा रहा है। ● प्रतिभूत आस्ति का विक्रय स्रक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।

 नीलामी बिक्री ई—नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। ● ई—नीलामी पोर्टल https://bankauctions.in के माध्यम से 16—11—2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक और आगे 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ सम्पन्न होगी।

● प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार यहां संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, यह आवश्यक है कि इच्छक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले किसी भी दावे, शुल्क, बकाया, भार के संदर्भ में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच–पड़ताल / पूछताछ कर लेनी चाहिये तथा उन्हें संपत्ति के नामाधिकार, सीमा–विस्तार / मापन के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। संपत्ति में किसी भी विसंगति के लिए प्रतिभागी बोलीदाता, बोली जमा करने की तिथि से भविष्य के सभी उपायों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। 🗨 बोली प्रस्तत करने के उपरांत विक्रयार्थ रखी गई संपत्ति, संपत्ति पर शल्कों / ऋणभारों अथवा किसी अन्य प्रकरण इत्यादि के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा ● प्राधिकृत अधिकारी / बीएचएफएल, विक्रय के अंतर्गत रखी गयी संपत्ति के संबंध में किसी भी शुल्क, धारणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर बकाया, विद्युत बकाया इत्यादि अथवा शासन, स्थानीय प्राधिकारी / प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति की किसी अन्य बकाया देय राशि के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

● सार्वजनिक नीलामी सुचना ⁄ विज्ञापन, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के किसी भी प्रस्ताव, प्रतिबद्धता या किसी भी अभिवेदन की रचना नहीं करते हैं और न ही रचना करते हुये माने जायेंगे। प्राधिकत अधिकारी / बीएचएफएल. किसी भी प्रकार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। ● बिक्री, सरफासी ऐक्ट, 2002 तथा उसकी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी।

🖜 यह उत्तरदायित्व बोलीदाताओं का होगा कि वे बोली प्रस्तुत करने से पूर्व— (क) नामाधिकार एवं लिंक प्रलेखों तथा (ख) संपत्ति का निरीक्षण कर लें और प्रतिभूत परिसंपत्ति एवं विनिर्देशन के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लें। निरीक्षण के लिए परिसरों में प्रवेश करने से पूर्व, यह आवश्यक है कि इच्छूक क्रेता उस पंजिका में अपने हस्ताक्षर के तहत अपनी पहचान, पता एवं संपर्क विवरण प्रदान करें जो पंजिका संपत्ति–स्थल में प्रवेश करने एवं वहां से बाहर जाने की उनकी प्रविष्टि की पुष्टि करती है।

• इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली, ईएमडी जमा कर चुके होने के प्रमाण के साथ, वेब पोर्टल : https://bankauctions.in के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी (लॉगइनआईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से https://bankauctions.in पर नाम पंजीकृत करवा कर युजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है)। ईएमडी एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते में :-- "बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" खाता सं. 57500000119623 तथा आईएफएससी कोड-एचडीएफसी0000007, 15 नवम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे से पूर्व तिथि एवं समय) देय होगी। कृपया नोट करें कि ईएमडी राशि चैक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण (एक को निम्नलिखित दस्तावेजों नामत : प) एनईएफटी / आरटीजीएस चालान की प्रति, पप) पैन कार्ड की प्रति, पपप) पहचान प्रमाण / पता प्रमाण (केवाईसी) की प्रतियां वेब पोर्टल पर बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व अपलोड करनी होंगी, जिनके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है। अनुलग्नक-।। एवं ।।। (वेब पोर्टल https://bankauctions.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं) की स्कैन प्रति भी, समुचित रूप से भरने और हस्ताक्षर करने के बाद, अपलोड करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता जो लॉगइनआईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोलीदान प्रक्रिया हेत प्रशिक्षण इत्यादि के लिए, मैसर्स 4क्लोजर, रु 605ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना–500038. prakash@bankauctions.in या श्री जय प्रकाश सम्पर्क नंबर 8142000066/62 से सम्पर्क कर सकते हैं तथा सम्पत्ति संबंधी किसी पूछताछ के लिए संबंधित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी . से उनके नाम के सामने वर्णित फोन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं। बोलियां, अन्य दस्तावेजों सहित प्राधिकृत अधिकारी के पास "क्रय हेतु ऑफर — 1. मुहम्मद यूसुफ 🛛 2. गुलनार यूसुफ एलएएन :– एच401ईसीएन0450962 तथा एच401एफएलपी0343469" शीर्षांकित एक सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी को, बोलियां जमा करने की अंतिम

● ऑनलाइन परस्पर बोलीदान के दौरान बोलीदाता अपनी बोली राशि ऊपर वर्णित "बोली वृद्धि राशि" अथवा इसके गुणजों में बढ़ा सकते हैं और ई—नीलामी की नियत समाप्ति से पहले अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने पर समाप्ति का समय स्वत.: 5 मिनट आगे बढ जाएगा (ई-नीलामी की समाप्ति तक हर बार), अन्यथा, यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ई-नीलामी समाप्ति

पर सर्वोच्च बोली देने वाला बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभृत लेनदार द्वारा, सम्यक जांच के बाद, सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। ● केवल वे क्रेता ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु ग्राह्य होंगे, जो वैध यूजर आईडी ⁄ पासवर्ड और डिमांड ड्राफ्ट ⁄ एनईएफटी ⁄ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी जमा की पुष्टि के धारक हैं। इच्छुक बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट बोली दस्तावेज (ईएमडी (सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत से कम नहीं) तथा अपेक्षित दस्तावेज (पॉइंट नंबर 5 में वर्णित), पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने (एक बार) तथा अपना स्वयं की युजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद, 15–11–2023 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक जमा करने होंगे, ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु ग्राह्म होंगे, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समुचित जांच (दस्तावेजों की)तथा/अथवा अनुमोदन के अधीन होगा।

• सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति और सफल बोलीदाता की घोषणा किये जाने के तुरंत बाद क्रय राशि का 25 प्रतिशत (पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद) अवश्य जमा करना होगा, ऐसा न करने पर भुगतान की गई ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा और बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बोलीदाता द्वारा इस पर ●ऑनलाइन परस्पर बोलीदान के दौरान बोलीदाता अपनी बोली राशि ऊपर वर्णित "बोली वृद्धि राशि" अथवा इसके गुणजों में बढ़ा सकते हैं और ई—नीलामी की नियत समाप्ति से पहले

अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा (ई-नीलामी की समाप्ति तक हर बार), अन्यथा, यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ई-नीलामी समाप्ति पर सर्वोच्च बोली देने वाला बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार द्वारा, सम्यक् जांच के बाद, सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। ● सफल बोलीदाता द्वारा क्रय राशि का शेष 75 प्रतिशत 15 दिनों के भीतर अवश्य जमा किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि बिना किसी भावी सुचना के स्वतः ही जब्त हो जाएगी और इस संबंध में धनवापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा

जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का, संपत्ति /राशि के संबंध में कोई दावा /अधिकार नहीं होगा और वह फिर से होनेवाली नीलामी, यदि कोई होती है, में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा 🛭 ● प्रतिभत आस्ति के विक्रय के संबंध में ईएमडी या बोलीदाताओं / सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि पर कोई ब्याज लाग नहीं है। क्रेता / सफल बोलीदाता को (क) लागू स्टांप शुल्क / पंजीकरण / इस्तांतरण शुल्कों; (ख) किसी भी व्यक्ति, संघ या प्राधिकरण को देय—भृग्तेय सभी वैधानिक, अ—सांविधिक, रूपांतरण, बिजली, सीवेज शुल्क, कोई बकाया, उपकर, शुल्क, कर, दर, मुल्यांकन शुल्क इत्यादि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।

• विक्रय प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा।

• असफल बोलीदाताओं की ईएमडी. नीलामी कार्यवाहियां समाप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।

दिनांक : 13–10–2023 स्थान : दिल्ली / एनसीआर

🗨 सफल बोलीदाता को लागु स्टाम्प एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण इत्यादि की व्यवस्था अपनी लागत पर करनी होगी। सफल बोलीदाता अधिकार हस्तांतरण, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर, शुल्क इत्यादि के लिए लागू होने वाले शुल्कों का भुगतान वहन करेगा। ● किसी भी ऋणभार के अधीन पड़ी संपत्ति के विक्रय की स्थिति में, सफल बोलीदाता / क्रेता से अपेक्षित होगा कि वे प्राधिकृत अधिकारी को ब्याज, लागत, व्ययों इत्यादि, यदि कोई, सहित ● यदि ईएमडी जमा की तिथि एवं ई—नीलामी तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो यह तिथि स्वतः अगले कार्यदिवस के लिए आगे बढ़ जाएगी।, यदि सार्वजनिक नीलामी रोकी जाती

है, स्थगित की जाती है अथवा पुनर्निर्धारित या निरस्त की जाती है तो बीएचएफफएल शाखा के नोटिस बोर्ड पर एक सार्वजनिक सचना लगायी जाएगी और इस संबंध में कोई भी निजी / व्यक्तिगत संचार किसी भी बोलीदाता को या अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। • बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई—नीलामी में भाग लेने से पहले मैसर्स 4क्लोजर के वेबपोर्टल https://bankauctions.in तथा https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices पर उपलब्ध ई–नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लेने की सलाह दी जाती है।

 बोलीदाता को अपने स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली देने से बचना चाहिए, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तथा सेवा प्रदाता किसी गडबडी / समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि सभी आवश्यक प्रबंध / वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि पावर सप्लाई बैकअप इत्यादि तैयार रखें, तािक ऐसे हालात से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। ● प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम ऑफर ∕ बोली स्वीकार करने को बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी ऑफर(ऑफर्स) को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा सार्वजनिक नीलामी को स्थगित / टालने / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

## मेट्रो सेवाएं 15 अक्तूबर को सुबह 03:45 बजे से

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के प्रतिभागियों की सविधा के लिए मेट्रो सेवाएं रविवार को सुबह तीन बचकर पैंतालीस मिनट से मिलेंगी। रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आगामी वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। उस दिन दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 03:45 बजे से शुरू होंगी।

#### GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Identity Number: L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4 MMTC/STC Market Geetanjali New Delhi - 110 017 Phone No.: +91 11 4218 1244

Website: www.genesisfinance.net; E-mail: genesis599@gmail.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time "Companies Act") read with the General Circulars bearing reference number "14/2020 dated April 08, 2020' and '17/2020 dated April 13, 2020' in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Act and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19' read with the General Circulars bearing reference number '22/2020 dated June 15, 2020', '33/2020 dated September 28, 2020', '39/2020 dated December 31, 2020', '10/2021 dated June 23, 2021', '20/2021 dated December 8, 2021', '2/2022 dated May 05, 2022', '11/2022 dated December 28, 2022' and '09/2023 dated September 25, 2023, in relation to extension of the framework provided in the aforementioned General Circulars up to September 30, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs 'MCA' and the circulars issued by MCA are collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations'), including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, and other applicable provisions of the Companies Act, to the Members of Genesis Finance Company Limited ("Company"), to consider and if thought fit to pass the resolution set out herein below as a special resolution in accordance with Regulation 11 of the SEBI Delisting Regulations and other applicable laws:

Description of Special Resolution Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from Metropolitian Stock

The Company has on October 12, 2023 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement to all Members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company or with their Depository Participant (in respect of the shares held in electronic form) and physical copies to the Members who have not registered their email ids as on Friday, October 06, 2023, i.e. the cut-off date. The voting rights of Members have been reckoned as on Friday, October 06, 2023 which was the cut-off date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information

voting through Postal Ballot including voting by electronic means shall commence from 9.00 AM IST on Friday, October 13, 2023 to 5.00 PM IST on Saturday, November 11, 2023. The Members who have their email ids registered with the Company, shall avail remote e-voting facility. Further, the facility of physical voting option through Postal Ballot papers will be provided to the Members who have not registered their email ids considering the relaxations

Members are requested to note that e-voting will not be allowed beyond 5.00 PM IST on Saturday, November 11, 2023. Further, for members opting for physical voting, duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 5.00 PM IST on Saturday, November 11, 2023.

The Company has engaged the services of Skyline Financial Services Private Limited "Registrar & Share Transfer Agent") for providing e-voting facility to all its Members. The instructions on the process of postal ballot through remote e-voting, including the manner in which Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses, are provided in the Postal Ballot Notice.

The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.genesisfinance.net, websites of the Stock Exchanges, i.e., Metropolitian Exchange of India Limited at www.msei.com and on the website of Skyline Financial Services Private

The Board of Directors have appointed Mr. Abhimanyu Upadhyaya, proprietor of M/s. A. Upadhyaya & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot in a fair and transparent manner The result of the Postal Ballot (along with Scrutinizer's report) will be declared by the Chairman

of the Company on or before Wednesday, November 15, 2023 and will also be displayed on the website of the Company (www.genesisfinance.net), besides being communicated to the Stock Exchanges, National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (together the "Depositories") and Registrar & Share Transfer Agent. In case of any queries or grievances with regard to voting by postal ballot including e-voting, members can visit Help & FAQ's section available at Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com or contact on: - Tel: 022-23058738 and 022-23058542/43 or Mr. Gopal Bisht, Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Company at genesis599@gmail.com.

Date: 12th October, 2023

Place: New Delhi

प्राधिकृत अधिकारी (जगदीप चौहान) बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

For Genesis Finance Company Limited

Richa Bhardwaj (Company Secretary & Compliance Officer) Membership No.: A32549

अब 'पेटीएम ऐप' से 'क्यूआर कोड' के जरिए मेट्रो टिकट

दिल्ली मेट्रो ने अपनी सभी लाइन पर 'पेटीएम ऐप' के माध्यम से क्युआर कोड-आधारित टिकट की सुविधा शुरू की है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने सभी मेट्रो लाइन के लिए विस्तारित इस नवोन्मेषी सेवा की शुरुआत की। पहले यह सविधा केवल एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही उपलब्ध थी।

#### प्रेमिका को चाकू मारा, घायल

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर। साकेत थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को चाकूँ मार गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को गुरुवार सुबह करीब 6:20 बजे मिली थी। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि युवक ने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। बातचीत करने के बाद जब प्रेमिका किराए पर लेकर आई कार में बैठने जा रही थी, तभी आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया था। कार चालक ने बहादुरी का परिचय देते हुए आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया। युवक की पहचान गाजियाबाद निवासी गौरव पाल (27)

## कोरोना काल के बाद गठिया के मरीजों में इजाफा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

के तौर पर की गई है। (जसं)

कोरोना काल के बाद रूमेटो आर्थराइटिस (गठिया) के मामलों में करीब 40 फीसद का इजाफा देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में हो रहे शोध के आंकड़े भी यही तथ्य पेश कर रहे हैं । एम्स के 'रूमेटो आर्थराइटिस' विभाग की मुखिया डा उमा कुमार ने संवाददाताओं से यह बात कही।

उन्होंने एम्स में हुए शोध के हवाले से बताया कि योग के साथ इसका इलाज करने पर रूमेटो आर्थराइटिस (गठिया) के मामलों में उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। उन्होंने बताया कि गठिया केवल जोड़ों के दर्द की बीमारी नहीं है, यह शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। दिमाग, आंख त्वचा पाचन सहित सभी अंगों को इस बीमारी के कारण दिक्कतें होती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह बीमारी अब केवल

### इसके लक्षणों में जोड़ों में दर्द के

अलावा, हृदयगति का अनियिमित होना , नसों में जकडन, आंखों में व त्वचा में रूखापन, सांस लेने में दिक्कत, सर्दियों में हाथ पैर का | नीला पडना आदि है। एम्स के शरीर रचना विज्ञान विभाग की डा रीमा दादा ने बताया कि इस बीमारी पर योग के प्रभावों के नतीजों ने दिखाया कि हार्मीन के असंतुलन को काफी टीक करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढा कर लाभ

बजर्गों ही नहीं बल्कि युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। इसके साथ ही प्रदुषण के कारण इसमें और इजाफा देखने को मिल रहा है।

www.readwhere.com